



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 32]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 17, 2001/पौष 27, 1922

No. 32]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 17, 2001/PAUSA 27, 1922

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2001

का.आ. 50(अ).— केन्द्रीय सरकार, सिक्का-निर्माण अधिनियम, 1906 (1906 का 3) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अवधारित करती है कि :—

(क) “गणतंत्र की स्पर्ण जयंती” (1950-2000) के समारोह की स्मृति में केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी करने के लिए टकसालों में निम्नलिखित अंकित मूल्य के सिक्कों का निर्माण भी किया जाएगा, अर्थात् :—

(1) पचास रुपए;

(2) पांच रुपए;

(3) दो रुपए;

(ख) उपरोक्त अंकित मूल्य के सिक्के निम्नलिखित विमाओं, डिजाइन और संरचना के अनुरूप होंगे, अर्थात् :—

सिक्के का अंकित मूल्य	रूप और बाह्य व्यास	दांतों की संख्या	धातु संरचना
पचास रुपए	गोल 39 मिलि मीटर	180	चतुर्थक मिश्रधातु चांदी—50% तांबा—40% निकल—5%
पांच रुपए	सुरक्षा किनारों सहित गोल 23 मिलि मीटर	—	जिंक—5% कूपरो निकल मिश्र धातु तांबा—75% निकल—25%

सिक्के का अंकित मूल्य	रूप और बाह्य व्यास	दांतों की संख्या	धातु संरचना
दो रुपए	एक कोने से सामने सपाट दिशा के मध्य तक 26 मिलिमीटर आकार का एकादश कोणीय सिक्का	—	कूपरो निकल मिश्र धातु तांबा—75% निकल—25%

डिजाइन

(1) पचास रुपए

मुख्य भाग :

सिक्के के इस भाग पर मध्य में अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष होगा जिसके नीचे "सत्यमेव जयते" आदर्श वाक्य अंतर्लिखित होगा, उसकी बाईं ऊपरी परिधि पर हिन्दी में "भारत" शब्द होगा और दाईं ऊपरी परिधि पर अंग्रेजी में "India" शब्द होगा। उस पर अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य "50" होगा और बाईं निचली परिधि पर हिन्दी में "रुपए" शब्द होगा और दाईं निचली परिधि में अंग्रेजी में "Rupees" शब्द होगा।

पृष्ठ भाग :

सिक्के के इस भाग पर मध्य में राष्ट्रीय प्रतीक होगा और उसके नीचे अंतर्राष्ट्रीय अंकों में "50" होगा। नीचे की परिधि पर उस पर समुद्र की बहती हुई शक्तिशाली लहरों का परिदृश्य होगा। ऊपरी बाईं परिधि पर हिन्दी में "गणतंत्र की स्वर्ण जयंती" शब्द और ऊपरी दाईं परिधि पर अंग्रेजी में "GOLDEN JUBILEE OF REPUBLIC" शब्द अंतर्लिखित होंगे। विषय के नीचे अंतर्राष्ट्रीय अंकों में "1950-2000" अंक दर्शित होंगे।

(2) पांच रुपए

मुख्य भाग :

सिक्के के इस भाग पर मध्य में अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष होगा जिसके नीचे "सत्यमेव जयते" आदर्श वाक्य अंतर्लिखित होगा, उसकी बाईं ऊपरी परिधि पर हिन्दी में "भारत" शब्द होगा और दाईं ऊपरी परिधि पर अंग्रेजी में "India" शब्द होगा। उस पर अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य "5" होगा और बाईं निचली परिधि पर हिन्दी में "रुपए" शब्द होगा और दाईं निचली परिधि में अंग्रेजी में "Rupees" शब्द होगा।

पृष्ठ भाग :

सिक्के के इस भाग पर मध्य में राष्ट्रीय प्रतीक होगा और उसके नीचे अंतर्राष्ट्रीय अंकों में "50" होगा। नीचे की परिधि पर उस पर समुद्र की बहती हुई शक्तिशाली लहरों का परिदृश्य होगा। ऊपरी बाईं परिधि पर हिन्दी में "गणतंत्र की स्वर्ण जयंती" शब्द और ऊपरी दाईं परिधि पर अंग्रेजी में "GOLDEN JUBILEE OF REPUBLIC" शब्द अंतर्लिखित होंगे। विषय के नीचे अंतर्राष्ट्रीय अंकों में "1950-2000" अंक दर्शित होंगे।

5 रूपयों के लिए सुरक्षा किनारा:

सिक्के का किनारा दांतेदार सहित नियमित क्रम से चिह्नित किया गया या ऊपर की तरफ रेखांकन और सुरक्षा किनारे वाला होगा। किनारे के मध्य में खाली स्थान द्वारा पृथक्कृत दो खंडों में के भीतर डिजाइन के साथ उठा हुआ खांचा होगा। इस डिजाइन में उभार में मनकाओं की माला होगी और दूसरा मनका उभार में प्रत्येक मनका के बाद एक आनत रेखा होगी। कुल 30 रेखाएं और 30 मनका होंगे।

(3) दो रुपए

मुख्य भाग :

सिक्के के इस भाग पर मध्य में अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष होगा जिसके नीचे "सत्यमेव जयते" आदर्श वाक्य अंतर्लिखित होगा, उसकी बाईं ऊपरी परिधि पर हिन्दी में "भारत" शब्द होगा और दाईं ऊपरी परिधि पर अंग्रेजी में "India" शब्द होगा। उस पर अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य "2" होगा और बाईं निचली परिधि पर हिन्दी में "रुपए" शब्द होगा और दाईं निचली परिधि पर अंग्रेजी में "Rupees" शब्द होगा।

पृष्ठ भाग :

सिक्के के इस भाग पर मध्य में राष्ट्रीय प्रतीक होगा और उसके नीचे अंतर्राष्ट्रीय अंकों में "50" होगा। नीचे की परिधि पर उस पर समुद्र की बहती हुई शक्तिशाली लहरों का परिदृश्य होगा। ऊपरी बाईं परिधि पर हिन्दी में "गणतंत्र की स्वर्ण जयंती" शब्द और ऊपरी दाईं परिधि पर अंग्रेजी में "GOLDEN JUBILEE OF REPUBLIC" शब्द अंतर्लिखित होंगे। विषय के नीचे अंतर्राष्ट्रीय अंकों में "1950-2000" अंक दर्शित होंगे।

[फा. सं. 7/1/2000-सिक्का-II(2)]

एल.आर. शहदादपुरी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2001

S.O. 50(E).— In exercise of the powers conferred by section 6 of the Coinage Act, 1906 (3 of 1906), the Central Government hereby determines that :-

(a) The coins of the following denominations shall also be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government to commemorate the occasion of "Golden Jubilee of Republic" (1950-2000), namely :-

- (1) Fifty Rupees;
- (2) Five Rupees;
- (3) Two Rupees;

(b) The coins of the above denominations shall conform to the following dimensions, design and composition namely :-

Denomination of the coin	Shape and outside diameter	Number of serrations	Metal composition
Fifty Rupees	Circular 39 millimeters	180	Quaternary Alloy Silver- 50% Copper- 40% Nickel- 5% Zinc - 5%
Five Rupees	Circular 23 millimeters with security edge	100	Cupro-Nickel Alloy Copper- 75% Nickel -25%
Two Rupees	Eleven Sided Coin 26 millimeters size from flat to crest		Cupro-Nickel Alloy Copper- 75% Nickel -25%

DESIGNS**(1) FIFTY RUPEES****OBVERSE :-**

This face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar in the centre with the legend "सत्यमेव जयते" inscribed below. Flanked on the left upper periphery with the word "भारत" in Hindi and on the right upper periphery with the word "INDIA" in English. It shall also bear the denomination value "50" in International Numerals, flanked on the left lower periphery with the word "रुपये" in Hindi and on the right lower periphery with the word "RUPEES" in English.

REVERSE :-

This face of the coin shall bear the national emblem in the centre with "50" in international numerals below it. On the lower periphery it depicts a panorama of flowing, powerful waves of a sea. On the upper left periphery with the words "गणतन्त्र की स्वर्ण जयंती" inscribed in Hindi and on the right upper periphery the word "GOLDEN JUBILEE OF REPUBLIC" in English. The figure "1950-2000" shall be shown below the theme in International Numerals.

(2) FIVE RUPEES**OBVERSE :-**

This face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar in the centre with the legend "सत्यमेव जयते" inscribed Below. Flanked on the left upper periphery with the word "भारत" in Hindi and on the right upper periphery with the word "INDIA" in English. It shall also bear the denomination value "5" in International Numeral flanked on the left lower periphery with the word "रुपये" in Hindi and on the right lower periphery with the word "RUPEES" in English.

REVERSE :-

This face of the coin shall bear the national emblem in the centre with "50" in international numerals below it. On the lower periphery it depicts a panorama of flowing, powerful waves of a sea. On the upper left periphery with the words "गणतन्त्र की स्वर्ण जयंती" inscribed in Hindi and on the right upper periphery the word "GOLDEN JUBILEE OF REPUBLIC" in English. The figure "1950-2000" shall be shown below the theme in International Numerals.

SECURITY EDGE FOR 5 RUPEES

The edge of the coin shall be milled with a serrated or upright milling and security edge. In the centre of the edge there shall be a shallow groove with a design inside the two sections separated by blank space. This design shall consist of chain of beads in relief and each bead being followed by one inclined line in relief. There shall be total 30 lines and 30 beads.

(3) TWO RUPEES

OBVERSE :-

This face of the coin shall bear the Lion Capital of Ashoka Pillar in the centre with the legend "सत्यमेव जयते" inscribed Below. Flanked on the left upper periphery with the word "भारत" in Hindi and on the right upper periphery with the word "INDIA" in English. It shall also bear the denominational value "2" in International Numerals flanked on the left lower periphery with the word "रुपये" in Hindi and on the right lower periphery with the word "RUPEES" in English.

REVERSE :-

This face of the coin shall bear the national emblem in the centre with "50" in international numerals below it. On the lower periphery it depicts a panorama of flowing, powerful waves of a sea. On the upper left periphery with the words "गणतन्त्र की स्वर्णजयंती" inscribed in Hindi and on the right upper periphery the word "GOLDEN JUBILEE OF REPUBLIC" in English. The figure "1950-2000" shall be shown below the theme in International Numerals.

[F. No. 7/1/2000-Coin-II(2)]

L.R. SHAHDADPURI, Under Secy.

